



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31]

No. 31]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 31—अगस्त 6, 2010 (श्रावण 9, 1932)

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 31—AUGUST 6, 2010 (SRAVANA 9, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग	खण्ड	विषय	पृष्ठ सं.	प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	पृष्ठ सं.
भाग I	खण्ड-1	(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1229	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग I	खण्ड-2	(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	649	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग I	खण्ड-3	रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	2019
भाग I	खण्ड-4	रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1247	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	*
भाग II	खण्ड-1	अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग II	खण्ड-1क	अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	7059
भाग II	खण्ड-2	विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	483
भाग II	खण्ड-3	उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*	भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्क	*
भाग II	खण्ड-3	उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय			

मौकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1229	Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	649	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	1	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1247	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	2019
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	7059
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	483
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I — खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 21 जुलाई 2010

संकल्प

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

उपाध्यक्ष

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

उपाध्यक्ष

गैर-सरकारी सदस्य

सं. 3/17/2010-करंसी--- भारतीय रुपए का ऐसा प्रतीक, जो भारतीय मूल्यों और संस्कृति को प्रतिबिंबित करता हो और इसका प्रतिनिधि हो, बनाने के लिए निवासी भारतीय नागरिकों से प्रविष्टियां आमंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय और प्रमुख क्षेत्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर एक सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा आयोजित की गई थी। प्राप्त हुई प्रविष्टियों का मूल्यांकन एक जूरी द्वारा किया गया जिसकी अध्यक्षता डिप्टी गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने की और जिसमें प्रतिष्ठित आर्ट एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट तथा केन्द्र सरकार से आए सदस्यों ने प्रतिनिधित्व किया। जूरी की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, सरकार ने भारतीय रुपए के प्रतीक का चयन किया है, जिसे श्री डी. उदय कुमार द्वारा प्रस्तुत किया गया है तथा जो नीचे दर्शाया गया है :

₹

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति मंत्रिमंडल सचिव/भारत सरकार के सभी विभागों के सचिवों/सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को प्रेषित की जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

बिमल जुल्का

महानिदेशक, करंसी निदेशालय

ग्रामीण विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 जुलाई 2010

संकल्प

सं. ई-11011/3/2009-हिन्दी-2-- भारत सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के संकल्प संख्या ई-11011/6/2003-हिन्दी-II दिनांक 20 अक्टूबर, 2005 के अंतर्गत गठित हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है। पुनर्गठित समिति की संरचना एवं कार्य आदि निम्न प्रकार होंगे :

(1) संरचना

ग्रामीण विकास मंत्री

अध्यक्ष

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

उपाध्यक्ष

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित

1. श्री शिवानंद तिवारी, संसद सदस्य (राज्य सभा) सदस्य
स्थानीय पता-फ्लैट नं. 702, ब्रह्मपुत्र,
डॉ. बी. डी. मार्ग, नई दिल्ली

स्थायी पता-107, जगत अमरावती अपार्टमेंट,
बेली रोड, पटना (बिहार)

2. श्री हुक्मदेव नारायण यादव, सदस्य
संसद सदस्य (लोक सभा)

स्थानीय पता-1567, सेक्टर-15, पार्ट-II,
गुड़गांव (हरियाणा)

स्थायी पता-गांव व पोस्ट-बिजुली,
जिला-दरभंगा (बिहार)

संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित

3. श्री जगदीश ठाकुर, संसद सदस्य (लोक सभा) सदस्य

4. श्री गोरख प्रसाद जयसवाल, सदस्य
संसद सदस्य (लोक सभा)

5. श्री मोती लाल बोरा, सदस्य
संसद सदस्य (राज्य सभा)

6. श्री बिरेन्द्र प्रसाद वैष्वा, सदस्य
संसद सदस्य (राज्य सभा)

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नामित

7. श्री तारा सिंह, एडवोकेट, सदस्य
53, हरि नगर, मेरठ-250002

8. श्री यशवंत कोठारी, सदस्य
86, लक्ष्मी नगर, बाहरी ब्रह्मपुरी
जयपुर-302002

9. श्री बृजेन्द्र रेही, सी-17, द्वितीय तल, दिल्ली पुलिस अपार्टमेंट, मयूर विहार फेस-1, दिल्ली-91	सदस्य	24. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य
10. डॉ. माधव हाड़ा, कार्यकारी महिला छात्रावास के पास, पी.डब्ल्यू.डी. कालोनी, सरोही-307001 राजस्थान	सदस्य	25. संयुक्त सचिव (प्रभारी रा.भा.), ग्रामीण विकास मंत्रालय	सदस्य सचिव
हिन्दी संगठनों के प्रतिनिधि		(2) समिति का कार्य	
11. श्री सी.एन.वी. अण्णामलै प्रधान सचिव, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास त्यागराय नगर, चैन्नई-600017	सदस्य	इस समिति का कार्य ग्रामीण विकास मंत्रालय में, संविधान के राजभाषा संबंधी प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम/नियमों के उपबंधों, केन्द्रीय हिन्दी समिति के निर्णयों तथा गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा जारी निर्देशों के कार्यान्वयन तथा मंत्रालय के काम-काज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के मामले में सलाह देना होगा।	
12. श्री मोहन प्रकाश दुबे, 25/5, सेक्टर-1, पुष्प विहार, नई दिल्ली-110017	सदस्य	(3) कार्यकाल	
राजभाषा विभाग द्वारा नामित		समिति का कार्यकाल इसके गठन की तारीख से तीन वर्षों के लिए होगा, किन्तु:	
13. श्रीमती मंजुला सेन गुप्ता, जी-141ए, चित्तरंजन पार्क, नई दिल्ली-110019	सदस्य	(क) जो संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं, संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य भी नहीं रह सकेंगे।	
14. श्री उत्पल घोष, पाकेट-के-1/30, चित्तरंजन पार्क, नई दिल्ली-110019	सदस्य	(ख) समिति के पदेन सदस्य उस समय तक सदस्य बने रहेंगे जब तक वे उन पदों पर हैं जिनके कारण वे समिति के सदस्य हैं।	
15. श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, 133/1, चातक गली, मौजपुर, दिल्ली 110053	सदस्य	(ग) यदि किसी सदस्य के त्यागपत्र अथवा मृत्यु आदि के कारण समिति में कोई स्थान रिक्त होता है तो उसके स्थान पर नियुक्त किया गया सदस्य समिति की शेष अवधि के लिए सदस्य होगा।	
सरकारी सदस्य		(4) सामान्य	
16. सचिव (ग्रामीण विकास विभाग)	सदस्य	समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा, किन्तु आवश्यकता पड़ने पर समिति अपनी बैठकें अन्य स्थानों पर भी कर सकती है।	
17. सचिव (पेयजल आपूर्ति विभाग)	सदस्य	(5) यात्रा भत्ता व अन्य भत्ते	
18. सचिव, (भूमि संसाधन विभाग)	सदस्य	समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11/20034/4/86-रा.भा. (नी.-2) में निहित दिशा-निर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित दलों एवं नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता दिया जाएगा।	
19. भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार एवं सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य	आदेश	
20. अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय	सदस्य	आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति समिति के सभी सदस्यों तथा सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, राष्ट्रपति सचिवालय, उप-राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, संसदीय राजभाषा समिति, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, ग्रामीण विकास मंत्रालय के वेतन तथा लेखा कार्यालय एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सभी सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों आदि को भेजी जाए।	
21. महानिदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद	सदस्य	यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।	
22. महानिदेशक, लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् (कपार्ट), नई दिल्ली	सदस्य		
23. महानिदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी नई दिल्ली	सदस्य		नीलम साहनी संयुक्त सचिव

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 14 जुलाई 2010

संकल्प

सं. ई.आर.बी.-I/2009/23/21--रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने विनिश्चय किया है कि श्री रूकबानुर रहमान, 7-बी/एच/13, तिलजला लेन, कोलकाता-700019 को रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के 16.07.2009 के समसंख्यक संकल्प के तहत पुनर्गठित यात्री सुविधा समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए पुनः नामित किया जाता है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

शिवाजी रक्षित
सचिव (रेलवे बोर्ड)

मंत्रालय द्वारा नामित

- | | |
|---------------------------------------|-------|
| 9. श्री हरिहर लाल श्रीवास्तव | सदस्य |
| 10. डॉ. (श्रीमती) आशा मिश्रा गोस्वामी | सदस्य |
| 11. डॉ. सुनील जोगी | सदस्य |
| 12. श्री सैयद हामिद अली | सदस्य |
| 13. चौधरी यशपाल सिंह | सदस्य |
| 14. डॉ. राम उदय प्रसाद | सदस्य |
- राजभाषा विभाग द्वारा नामित
- | | |
|-------------------------|-------|
| 15. श्री अशोक कुमार जैन | सदस्य |
| 16. श्री संदीप गांधी | सदस्य |
| 17. श्री रमेश | सदस्य |

सरकारी सदस्य

- | | |
|--|------------|
| 18. सचिव, विद्युत मंत्रालय | सदस्य |
| 19. सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय | सदस्य |
| 20. विशेष सचिव, विद्युत मंत्रालय | सदस्य |
| 21. अपर सचिव, विद्युत मंत्रालय | सदस्य |
| 22. संयुक्त सचिव (प्रशासन), विद्युत मंत्रालय | सदस्य-सचिव |
| 23. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय | सदस्य |
| 24. अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली | सदस्य |
| 25. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनटीपीसी लिमिटेड, नई दिल्ली | सदस्य |
| 26. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि., गुडगांव | सदस्य |
| 27. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पावर फाइनेंस कारपोरेशन लि., नई दिल्ली | सदस्य |
| 28. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि., नई दिल्ली | सदस्य |
| 29. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी लि., फरीदाबाद | सदस्य |
| 30. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एसजेबीएन लिमिटेड, शिमला | सदस्य |
| 31. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश | सदस्य |
| 32. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि., शिलांग | सदस्य |
| 33. अध्यक्ष, भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड, चंडीगढ़ | सदस्य |
| 34. अध्यक्ष, दामोदर घाटी निगम, कोलकाता | सदस्य |

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 जुलाई 2010

संकल्प

सं. 11011/2/2009-हिंदी--भारत सरकार ने अपने दिनांक 21 अप्रैल, 2005 के संकल्प संख्या 11011/2/2004-हिंदी के अधिक्रमण में विद्युत मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का गठन करने का निर्णय लिया है। समिति का गठन, कार्य आदि इस प्रकार होंगे :--

(क) समिति का गठन

विद्युत मंत्री

अध्यक्ष

विद्युत राज्य मंत्री

उपाध्यक्ष

गैर सरकारी सदस्य

संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित

- | | |
|--|-------|
| 1. श्री कमल किशोर, संसद सदस्य (लोक सभा) | सदस्य |
| 2. श्री मोहन जेना, संसद सदस्य (लोक सभा) | सदस्य |
| 3. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी, संसद सदस्य/(राज्य सभा) | सदस्य |
| 4. श्री प्रकाश जावडेकर, संसद सदस्य (राज्य सभा) | सदस्य |

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित

- | | |
|---|-------|
| 5. डॉ. निर्मल खत्री, संसद सदस्य (लोक सभा) | सदस्य |
| 6. श्री जे. एम. आरोन रशीद, संसद सदस्य (लोक सभा) | सदस्य |

अखिल भारतीय हिंदी संस्थाओं एवं केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद् के प्रतिनिधि

- | | |
|--|-------|
| 7. श्री कृष्णानन्द झा, प्रतिनिधि, अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ, नई दिल्ली | सदस्य |
| 8. श्री गोपाल कृष्ण फरलिया, प्रतिनिधि, केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद्, नई दिल्ली | सदस्य |

35. महानिदेशक, केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बैंगलूर सदस्य
36. महानिदेशक, राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, फरीदाबाद सदस्य
37. महानिदेशक, ऊर्जा कार्यकुशलता ब्यूरो, नई दिल्ली सदस्य

ख. कार्य

समिति का कार्य सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित विषयों तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित राजभाषा नीति के ढांचे के अंतर्गत आने वाले मामलों पर विद्युत मंत्रालय को सलाह देना होगा।

ग. कार्यकाल

समिति का कार्यकाल उसके गठन की तारीख से तीन वर्ष होगा, बशर्ते कि :—

1. समिति में नामित संसद सदस्य जैसे ही संसद के सदस्य नहीं रहेंगे, इस समिति के भी सदस्य नहीं रहेंगे।
2. समिति के सरकारी सदस्य उस समय तक सदस्य बने रहेंगे जब तक वे उस पद को धारण किये हुए हैं, जिसके कारण उन्हें समिति का सदस्य बनाया गया है।
3. अवधि के बीच रिक्त हुआ स्थान संबंधित सदस्य के स्थान पर उसके पद पर आने वाले अधिकारी से भरा जाएगा और यह अधिकारी तीन वर्ष की अवधि के बकाया समय के लिये समिति का सदस्य रहेगा।

घ. सामान्य

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। दिल्ली के बाहर भी समिति की बैठक आयोजित की जा सकती है।

ड. यात्रा तथा अन्य भत्ते

समिति की बैठक में भाग लेने वाले गैर-सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/20034/4/86-रा.भा. (क-2) में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार नियत दर और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित नियमों के अनुसार यात्रा और दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समिति के सभी सदस्यों, राष्ट्रपति सचिवालय, उप राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों एवं संघ राज्य प्रशासनों, को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एम. रवि कांत
संयुक्त सचिव

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

New Delhi, the 21st July 2010

RESOLUTION

No. 3/17/2010-Cy.—A public competition was held by advertising in the national and leading regional newspapers inviting entries from resident Indian citizens for the symbol for Indian Rupee which reflects and captures the Indian ethos and culture. The entries received were evaluated by a jury headed by the Deputy Governor, RBI and represented by the members from reputed Art and Design Institute and Central Government. After considering the recommendations of the jury, the government has selected a symbol for the Indian Rupee, which submitted by Shri D. Udaya Kumar, as depicted below.



ORDER

ORDERED that a copy of the resolution be communicated to Cabinet Secretary/Secretaries of all Departments of the Government of India/Chief Secretaries of all States/UTs.

ORDERED also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

BIMAL JULKA

Dir. General Directorate of Currency.

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 13th July 2010

RESOLUTION

No. E-11011/3/2009-Hindi-2—The Govt. of India have decided to reconstitute the Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Rural Development constituted vide resolution No. E-11011/6/2003-Hindi-2, dated 20-10-2005. The composition and functions etc. of the Samiti shall be as under :—

(1) COMPOSITION

Minister of Rural Development	Chairman
Minister of State for Rural Development	Vice Chairman
Minister of State for Rural Development	Vice Chairman
Minister of State for Rural Development	Vice Chairman

Non-Official Members

Nominated by the Committee of Parliament on Official Language

1. Shri Shivanand Tiwari, Member
M.P. (Rajya Sabha)
Local Add.—Flat No. 702,
Brahmaputra, Dr. B.D. Marg,
New Delhi.
Permanent Add.—107, Jagat Amrawati
Apartment,
Beli Road, Patna (Bihar).

2. Shri Hukmdev Narayan Yadav, Member
M.P. (Lok Sabha)
Local Add.—1567, Sector-15, Part-II,
Gurgaon (Haryana).
Permanent Add.—Vill. and P.O. Bijuly,
Distt. Darbhanga, Bihar.

Nominated by the Ministry of Parliamentary Affairs

3. Shri Jagdish Thakor, Member
M.P. (Lok Sabha)
4. Shri Gorakh Prasad Jaiswal, Member
M.P. (Lok Sabha).
5. Shri Motilal Vora, Member
M.P. (Rajya Sabha).
6. Shri Birendra Prasad Baishya, Member
M.P. (Rajya Sabha).

Nominated by the Ministry of Rural Development

7. Shri Tara Singh, Advocate Member
53, Hari Nagar, Meerut-250002.
8. Shri Yashwant Kothari, Member
86, Laxmi Nagar, Outer Brahmpuri,
Jaipur-302002 (Rajasthan).
9. Shri Brijendra Rehi, Member
C-17, IInd Floor,
Delhi Police Apartment,
Mayur Vihar Phase-I,
Delhi-110091.
10. Dr. Madhava Hada, Member
Near Working Women Hostel,
P.W.D. Colony, Sirohi
(Rajasthan)-307001.

Representatives of Hindi Organisations

11. Shri C.N.V. Annamalai, Member
General Secretary,
Dakshin Bharata Hindi Prachar Sabha,
Thyagaraya Nagar,
Chennai-600017.
12. Shri Mohan Prakash Dube, Member
25/5, Sector-1, Pushp Vihar,
New Delhi-110017.

Nominated by the Deptt. of Official Language

13. Smt. Manjula Sen Gupta, Member
G-141-A, Chitrangan Park,
New Delhi-110019.
14. Shri Utpal Ghosh, Member
Pocket K-1/30,
Chitrangan Park,
New Delhi-110019.
15. Shri Rajendra Prasad Sharma, Member
133/1, Chatak Gali,
Mauzpur,
Delhi-110053.

Official Members

16. Secretary, (Deptt. of Rural Development) Member

- | | |
|--|------------------|
| 17. Secretary, (Deptt. of Drinking Water Supply) | Member |
| 18. Secretary, (Deptt. of Land Resources) | Member |
| 19. Secretary, (Deptt. of Official Language) & Hindi Adviser to the Govt. of India. | Member |
| 20. Additional Secretary & Financial Advisor, M/o Rural Development | Member |
| 21. Director General, National Institute of Rural Development, (NIRD) Hyderabad. | Member |
| 22. Director General, Council for Advancement of People's Action and Rural Technology (CAPART), New Delhi. | Member |
| 23. Director General, National Rural Road Development Agency, New Delhi. | Member |
| 24. Joint Secretary, Deptt. of Official Language. | Member |
| 25. Joint Secretary (Incharge O. L.), M/o Rural Development. | Member-Secretary |

(2) FUNCTIONS OF THE COMMITTEE

The functions of this Committee will be to render advice to the Ministry of Rural Development on the implementation of various provisions relating to Official Language contained in the Constitution, Official Language Act/Rules, decisions of the Kendriya Hindi Samiti and the instructions issued by the Ministry of Home Affairs (Deptt. of Official Language) in this regard and on matters relating to progressive use of Hindi for official purposes.

(3) TENURE

The tenure of the Samiti will be three years from the date of its constitution provided that :—

- A Member of Parliament who is a member of the Samiti shall cease to be a member of the samiti as soon as he ceases to be the Member of Parliament.
- Ex-officio members of the Samiti shall continue as members as long as they hold offices by virtue of which they are members of the Samiti.
- If a vacancy arises on the Samiti due to resignation, death etc. of a member, the member so nominated in that capacity shall hold office of the residual term of the Samiti.

(4) GENERAL

The Headquarters of the Samiti shall be at New Delhi but if required it may hold its meetings at any other station also.

(5) TRAVELLING & OTHER ALLOWANCES

The non-official members will be paid travelling and daily allowances for attending the meetings of Hindi Salahkar

Samiti as per guidelines contained in O.M. No. 11/20034/4/86-O.L. (Policy-2) dated 22nd January, 1987 of the Deptt. of Official Language and according to the rules and rates as amended by the Govt. of India from time to time.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all the members of the Samiti, all State Govts. and Union Territory Administrations, President's Secretariat, Vice President's Secretariat, all Ministries and Departments of the Govt. of India, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, Committee of Parliament on Official Language, Comptroller and Auditor General of India, Pay & Accounts Office of the Ministry of Rural Development and Attached and Subordinate offices under the control of the Ministry of Rural Development.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

NILAM SAWHNEY
Jt. Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 14th July 2010

RESOLUTION

No. ERB-I/2009/23/21—Ministry of Railways (Railway Board) have decided to re-nominate Shri Rukbanur Rahman, 7B/H/13, Tiljala Lane, Kolkata-700019 to function as a member of the Passenger Amenities Committee reconstituted vide Ministry of Railways (Railway Board's) Resolution of even number dated 16.07.2009.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

SHIVAJI RAKSHIT
Secy. (Railway Board)

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 15th July 2010

RESOLUTION

No. 11011/2/2009-Hindi.—The Government of India, in supersession of their resolution No. 11011/2/2004-Hindi dated 21st April, 2005, has decided to constitute a Hindi Advisory Committee (HAC) for the Ministry of Power. The Composition of the Committee, its function etc. will be as under :—

A. CONSTITUTION OF THE COMMITTEE

Minister of Power	Chairman
Minister of State for Power	Deputy Chairman

Non-Official Members

Nominated by Ministry of Parliamentary Affairs

1. Sh. Kamal Kishor, M.P. (Lok Sabha) Member
2. Sh. Mohan Jena, M.P. (Lok Sabha) Member
3. Sh. Satyavrat Chaturvedi, M.P. (Rajya Sabha) Member
4. Sh. Prakash Javadekar, M.P. (Rajya Sabha) Member

Nominated by Parliamentary Committee on Official Language

5. Dr. Nirmal Khatri, M.P. (Lok Sabha) Member
6. Sh. J. M. Aaron Rashid, M.P. (Lok Sabha) Member

Representatives of All India Hindi Institutes and Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad

7. Sh. Krishnanand Jha, Representative, Member Akhil Bhartiya Hindi Sanstha Sangh, New Delhi.
8. Sh. Gopal Krishan Pharlai, Representative, Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad, New Delhi. Member

Nominated by the Ministry

9. Sh. Harihar Lal Srivastava Member
10. Dr. Smt. Asha Mishra Goswami Member
11. Dr. Sunil Jogi member
12. Sh. Syed Hamid Ali Member
13. Chaudhary Yashpal Singh Member
14. Dr. Ram Uday Prasad Member

Nominated by the Official Language Department

15. Sh. Ashok Kumar Jain Member
16. Sh. Sandeep Gandhi Member
17. Sh. Ramesh Member

Official Members

18. Secretary, Ministry of Power Member
19. Secretary, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs Member
20. Special Secretary, Ministry of Power Member
21. Additional Secretary, Ministry of Power Member
22. Joint Secretary (Admn.), Ministry of Power Member-Secretary

23. Joint Secretary, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs. Member

24. Chairman, Central Electricity Authority, New Delhi Member

25. Chairman & Managing Director, NTPC Limited, New Delhi. Member

26. Chairman & Managing Director, Powergrid Corporation of India Ltd. Gurgaon. Member

27. Chairman & Managing Director, Power Finance Corporation Ltd., New Delhi. Member

28. Chairman & Managing Director, Rural Electrification Corporation Ltd., New Delhi. Member

29. Chairman & Managing Director, NHPC Limited, Faridabad. Member

30. Chairman & Managing Director, SJVN Limited, Shimla. Member

31. Chairman & Managing Director, THDC India Limited, Rishikesh. Member

32. Chairman & Managing Director, North Eastern Electric Power Corporation Ltd., Shillong. Member

33. Chairman, Bhakra Beas Management Board, Chandigarh. Member

34. Chairman, Damodar Valley Corporation, Kolkata. Member

35. Director General, Central Power Research Institute, Bangalore. Member

36. Director General, National Power Training Institute, Faridabad. Member

37. Director General, Bureau of Energy Efficiency, New Delhi. Member

B. FUNCTIONS

The functions of the Committee will be to advise the Ministry of Power in matters relating to the progressive use of Hindi for Official work and allied issues falling within the frame-work of the Official Language policy laid down by the Government of India.

C. TENURE

The term of the Committee will be three years from the date of its composition, provided that :—

1. A member of Parliament nominated to the Committee shall cease to be a member of the Committee as soon as he/she ceases to be a member of Parliament.

2. Official members of the Committee shall continue as members as long as they hold office by virtue of which they are the members of the Committee.
 3. Any mid-term vacancy shall be filled up by the concerned member's successor in office, who shall be a member of the Committee for the remaining term of three years.
- D. GENERAL

The Headquarters of the Committee shall be at New Delhi but it may hold its meeting at any other station also.

E. TRAVELLING AND OTHER ALLOWANCES

The Non-Official members will be paid travelling and daily allowances for attending the meeting of the Committee as per the guidelines contained in the Office Memorandum No. II/20034/4/86-OL(A-2) dated 22nd January, 1987 of

Department of Official Language and at the fixed rates and as per rules amended by the Government of India from time to time.

ORDER

ORDERED that a copy of this resolution be communicated to all the members of the Committee, President's Secretariat, Vice President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, Ministry of Parliamentary Affairs, Comptroller and Auditor General of India, all Ministries and Departments of Government of India and all State Government and Union Territory Administrations.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

M. RAVIKANTH
Jt. Secy.